

Alibaba had planned to list in the summer but called it off owing to the city's long-running pro-democracy protests and the China-US trade war. The US and China are now working on sealing a partial trade deal

A second listing in Hong Kong is expected to curry favour with Beijing, which has sought to encourage its current and future big tech firms to list nearer to home after the loss of companies such as Baidu to Wall Street.

In the statement, Zhang said that when Alibaba went public in 2014 it "missed out on Hong Kong with regret".

Mainland authorities have also stepped up moves to attract such listings, including launching a new technology board in Shanghai in July.

The listing comes after the city's exchange tweaked the rules to allow double listings, while Chief Executive Carrie Lam had also been pushing Alibaba's billionaire founder Jack Ma to sell shares in the city. "The listing in Hong Kong will allow more of the company's users and stakeholders in the Alibaba digital economy across Asia to invest and participate in Alibaba's growth," the company said.

It has long been

expected to launch a multibillion-dollar stock listing in Hong Kong but appeared to postpone the offering because of political and economic turmoil.

Hong Kong's key Hang Seng Index rose 0.48 percent in morning trading following the announcement Chinese shoppers set new records for spending on Monday's annual 24-hour "Singles' Day" buying spree despite an economic slowdown in

the country and the worries over the US trade war.

It said consumers spent \$38.3 billion on its platforms over that stretch,

up 26 percent from the previous all-time high mark set last year. Alibaba also said it saw record amounts of cross-border sales, underlining its plans to expand globally. "Globalisation is the future of Alibaba Group. We firmly believe the marriage of digital technology and commerce will bring about unprecedented change that will not be limited by borders," Zhang said.

cb0624@corpbank.co.in	MA3EJKD1S00900248, Yr. of Manufacture-2016	expenses etc.	extensions of 10 Minutes	CORP 000024
For detailed terms and condition of the sale, please refer to the link provided in : https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/anil_kumar_dubay.pdf and also refer at : www.bankauctions.in & https://fbapi.in				
Date : 15-11-2019, Place : New Delhi			Authorised Officer, Corporation Bank	

optiemus

OPTIEMUS INFRACOM LIMITED

CIN: L64200DL1993PLC054086

Registered Office: K-20, Second Floor, Lajpat Nagar - II, New Delhi - 110024
Corporate Office: Plot No. 2A, First Floor, Sector-126, Noida, Uttar Pradesh - 201301
website: www.optiemus.com | Email: info@optiemus.com | Ph: 0120-6726800

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2019


S. No.	Particulars	Standalone						Consolidated						
		Quarter Ended			Half Year Ended			Quarter Ended			Half Year Ended			Year Ended
		30.09.2019	30.06.2019	30.09.2018	30.09.2019	30.09.2018	31.03.2019	30.09.2019	30.06.2019	30.09.2018	30.09.2019	30.09.2018	31.03.2019	
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited	
1	Total income from operations (net)	12,879	8,726	10,797	21,605	22,567	40,107	13,969	10,190	47,272	24,159	73,589	119,597	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(937)	(1,377)	330	(2,314)	765	187	(1,104)	(1,668)	(1,132)	(2,772)	(2,489)	(3,822)	
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(937)	(1,377)	330	(2,314)	765	187	(1,830)	(1,865)	(1,094)	(3,695)	(2,451)	(3,908)	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(625)	(935)	210	(1,560)	499	222	(1,466)	(1,349)	(1,153)	(2,815)	(2,524)	(4,141)	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	(612)	(941)	211	(1,553)	509	233	(1,454)	(1,355)	(1,539)	(2,808)	(3,437)	(6,184)	
6	Equity Share Capital (Face Value per share: Rs. 10/-)	858,141,910	858,141,910	858,141,910	858,141,910	858,141,910	858,141,910	858,141,910	858,141,910	858,141,910	858,141,910	858,141,910	858,141,910	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance sheet of previous year	-	-	-	-	-	24,763	-	-	-	-	-	23,543	
8	Earnings per share (for continuing and discontinued operations)													
(a)	Basic	(0.71)	(1.10)	0.25	(1.81)	0.59	0.27	(1.69)	(1.58)	(1.79)	(3.27)	(4.01)	(7.21)	
(b)	Diluted	(0.71)	(1.10)	0.25	(1.81)	0.59	0.27	(1.69)	(1.58)	(1.79)	(3.27)	(4.01)	(7.21)	

NOTES:

- The above is an extract of the detailed format of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Reg. 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the said Results are available on the Stock Exchanges website i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on company's website www.optiemus.com
- The Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter and half year ended 30th September, 2019 have been duly reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on Thursday, 14th November, 2019.

Date: 14.11.2019
Place: Noida (U.P.)

For and on Behalf of the Board
Optiemus Infracom Limited
Sd/-
Ashok Gupta
Executive Chairman
DIN: 00277434



दवावग्रस्त आरिष्ठ प्रबंधन शाखा: बी-116, एपेकट्टम इन्फ्राटेक विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010, उ०प्र०
 फोन नं०: 0522-2271691, 2271692, Email: samb.lucknow@syndicatebank.co.in

बिज़नेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | 16 नवंबर 2019 शनिवार

optimus
ऑप्टिमस इन्फ्राकॉम लिमिटेड
 CIN: L64200DL1993PLC054086

पंजीकृत कार्यालय: के-20, दूसरी मंजिल, लाजपत नगर, पार्ट-II, नई दिल्ली-110 024
 कॉरपोरेट कार्यालय: प्लॉट सं. 2ए, पहली मंजिल, सेक्टर-126, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201 301
 वेबसाइट: www.optimus.com | ई-मेल: info@optimus.com | दूरभाष सं.: 0120-6726800

30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिए अनांकित एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों का निष्कर्ष
 ईपीएस एवं शेयर पूंजी को छोड़कर आंकड़े लाख में

क्र. सं.	विवरण	एकल						समेकित					
		समाप्त तिमाही			समाप्त छमाही			समाप्त तिमाही			समाप्त छमाही		
		30.09.2019	30.06.2019	30.09.2018	30.09.2019	30.09.2018	31.03.2019	30.09.2019	30.06.2019	30.09.2018	30.09.2019	30.09.2018	31.03.2019
1	परिचालन से कुल आय (निवल)	12,879	8,726	10,797	21,605	22,567	40,107	13,969	10,190	47,272	24,159	73,589	119,597
2	अवधि (कर, विनिश्चि तन्हा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व) के लिए निवल लाभ/(हानि)	(937)	(1,377)	330	(2,314)	765	187	(1,104)	(1,668)	(1,132)	(2,772)	(2,489)	(3,822)
3	कर पूर्व अवधि (विनिश्चि तन्हा/अथवा असाधारण मदों के उपरान्त) के लिए निवल लाभ/(हानि)	(937)	(1,377)	330	(2,314)	765	187	(1,830)	(1,865)	(1,094)	(3,695)	(2,451)	(3,908)
4	करोपरान्त अवधि (विनिश्चि तन्हा/अथवा असाधारण मदों के उपरान्त) के लिए निवल लाभ/(हानि)	(625)	(935)	201	(1,560)	499	222	(1,466)	(1,349)	(1,153)	(2,815)	(2,524)	(4,141)
5	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [(करोपरान्त) हेतु लाभ/हानि तथा अन्य व्यापक आय (करोपरान्त) सम्मिलित]	(612)	(941)	211	(1,553)	509	233	(1,454)	(1,355)	(1,539)	(2,808)	(3,437)	(6,184)
6	इंफ्लेक्टी शेयर पूंजी (प्रति शेयर अंकित मूल्य: ₹. 10/-)	858,141,910	858,141,910	858,141,910	858,141,910	858,141,910	858,141,910	858,141,910	858,141,910	858,141,910	858,141,910	858,141,910	858,141,910
7	आरक्षित निधि (पुनर्मुल्यांकन आरक्षण के अलावा) पिछले वर्ष के लेखा परीक्षित तुल्य पत्र में दर्शाई गई						24,763						23,543
8	प्रति शेयर उपाार्जन (जारी एवं बंद परिचालन के लिए)	(0.71)	(1.10)	0.25	(1.81)	0.59	0.27	(1.69)	(1.58)	(1.79)	(3.27)	(4.01)	(7.21)
(क)	वैसिक	(0.71)	(1.10)	0.25	(1.81)	0.59	0.27	(1.69)	(1.58)	(1.79)	(3.27)	(4.01)	(7.21)
(ख)	डाइव्यूटेड												

- Total Income from Operations
 - Net Profit (+)/Loss (-) Ordinary Activities after tax
 - Net Profit (+)/ Loss (-) for the Period (11-12)
 - Paid-Up Equity share capital (Face Value Rs.10/-)
 - Reserve excluding Revaluation Reserves as per sheet of previous accounting year)
 - Earning Per Share (EPS) (Rs.10/-/Each) (Not annualised) (Before & After extra ordinary item)
- a. Basic
b. Diluted

Note :

- The aforesaid result were reviewed by Audit Comr their respective meeting held on November 14, 2019
- As per the notification in SEBI(LODR) Reg. 2015 on as per Ind-AS is not applicable to the Company.
- The above is an extract of the detailed format of the filed with the stock exchange under Regulation 30 (Requirements) Regulations, 2015. The full format website of stock exchange at <http://www.mse.in/in> viz. www.regalenterprise.in

Place : Delhi
Date : 14/11/2019

टिप्पणी :

- ऊपर उल्लिखित विवरण सेबी (सूचीकरण, दायित्व एवं अन्य आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों के पास दायर अनांकित एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का निष्कर्ष है। उक्त वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी www.bseindia.com तथा www.nseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.optimus.com पर उपलब्ध है।
- लेखा परीक्षक कमिटी द्वारा 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के लिए कंपनी के अनांकित एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों की मूल्यमापन समीक्षा की गई है तथा निदेशक मंडल द्वारा बृहत्पत्रित्वार, 14 नवम्बर, 2019 को आयोजित संबंधित बैठक में उसे अनुमोदित किया गया है।

दिनांक : 14.11.2019
स्थान: नोएडा (उ.प्र.)

ए०जेड इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड

ऋण वसूली अधिकारी
ऋण वसूली प्राधिकर
 4थी मंजिल, जीवन तारा विन्डिंग, पालिका
 आर.सं. सं. 389/2017
बैंक ऑफ महाराष्ट्र बनाम मै
 आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम
 के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 19
 सीडी नं. 1. मैसर्स इन्डिगो मार्केटिंग स्वत्वाधिकारी श्री संजय पाण्डे, IX/6
 110031
 सीडी नं. 2 श्री संजय पाण्डे पिता श्री सी एल पाण्डे बी-91, शिवालिक अप
 सीडी नं. 3 श्री संदीप खेड़ा पिता श्री आर. एल. खेड़ा बी-14, रामपुरी, गा
 सीडी नं. 4 श्रीमती निरुपमा पाण्डे पति श्री संजय पाण्डे बी-91, शिवालिक